

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने इस वर्ष 8,000 पेड़ लगाने के लिए कैंनेडा सरकार से 1.2 मिलियन डॉलर का निवेश सुरक्षित किया

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (4 अगस्त, 2021) – आज, मेयर पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown); ब्रैम्पटन सिटी काउंसलर्स; और मिनिस्टर ऑफ नैचुरल रिसोर्सिज, माननीय शेम्स ओ'रीगन जूनियर (Seamus O'Regan Jr.) की ओर से, मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डिवेलपमेंट के लिए पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और ब्रैम्पटन ईस्ट के लिए मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट, मनिंदर सिद्धू (Maninder Sidhu) ने, इस वर्ष ब्रैम्पटन में लगभग 8,000 पेड़ लगाने के लिए 1,280,000 डॉलर के निवेश का ऐलान किया।

यह, 10 वर्षों में दो बिलियन पेड़ लगाने की कैंनेडा सरकार की योजना और 2040 तक एक मिलियन पेड़ लगाने के सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के दृष्टिकोण की हिमायत में है।

कैंनेडा सरकार का निवेश, ब्रैम्पटन की अर्बन ट्री कैंनोपी में योगदान देगा। सिटी, ये पेड़, कुदरती जगहों पर, स्ट्रीट्स के साथ-साथ, पार्को में समतल जमीन पर, बुलेवार्डों के अंदर और कम्युनिटी के बगीचों में लगाएगी। ब्रैम्पटन का पेड़ लगाने का प्रोग्राम, 50 वर्षों में लगभग, 35,500 टन ग्रीनहाउस गैस (जी.एच.जी.) को समाप्त कर देगा।

ग्रीन सिटी (Green City) होने के तौर पर, ब्रैम्पटन अपने स्थिरता और जलवायु संबंधी प्रयासों के हिस्से के तौर पर अपने शहरी जंगल को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। 2040 तक एक मिलियन पेड़ लगाना, ब्रैम्पटन के [ग्रो ग्रीन एन्वायरनमेंटल मास्टर प्लान \(ई.एम.पी.\) \(Grow Green Environmental Master Plan \(EMP\)\)](#), [अर्बन फोरेस्ट मैनेजमेंट प्लान \(यू.एफ.एम.पी.\) \(Urban Forest Management Plan\) \(UFMP\)](#), और [कम्युनिटी एनर्जी एंड एमिशन रिडक्शन प्लान \(सी.ई.ई.आर.पी.\) Community Energy and Emissions Reduction Plan \(CEERP\)](#) का हिस्सा है।

ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) ने सितम्बर को ब्रैम्पटन ट्री मंथ (Brampton Tree Month) के तौर पर नियत किया है। यह वार्षिक जशन, पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने, ब्रैम्पटन के शहरी जंगल को सुरक्षित रखने और इनमें वृद्धि करने के प्रति सिटी और कम्युनिटी के प्रयासों और सफलताओं का जशन मनाने, नागरिक भागीदारी को बढ़ाने, स्वस्थ और जलवायु संबंधी स्थिर कम्युनिटी बनाने, पर्यावरणीय प्रबंधन विकसित करने और सिटी के एक मिलियन पेड़ लगाने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा। इस बारे में विवरण जल्द ही, www.brampton.ca/trees पर उपलब्ध होंगे।

लिंक

- [दो बिलियन पेड़ों के हिस्से के तौर पर ब्रैम्पटन में पेड़ लगाना \(Planting Trees in Brampton as Part of Two Billion Trees\)](#)

हवाले

“ब्रैम्पटन एक ग्रीन सिटी है और हम हमारे पेड़ों, पौधों और हरी-भरी जगहों को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा शहरी जंगल, हमारी कम्युनिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और मैं इस फंडिंग का स्वागत करता हूँ, जो 2040 तक ब्रैम्पटन में एक मिलियन पेड़

लगाने के हमारे लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगी और 10 वर्षों तक दो बिलियन पेड़ लगाने की कैनेडा सरकार की योजना की हिमायत करेगी।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन के शहरी जंगल में कैनेडा सरकार का निवेश, हमारी स्थिरता और जलवायु संबंधी लक्ष्यों में सीधे योगदान देगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ब्रैम्पटन एक ग्रीन सिटी है, बहुत-सा काम जारी है। ये पेड़ हमारी कम्युनिटी में बदलाव लाएंगे।”

- रोएना सैंटोस (Rowena Santos), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; चेयर, कम्युनिटी सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी का स्टाफ, ब्रैम्पटन में निवेश लाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम, हमारे शहर में कैनेडा सरकार के महत्वपूर्ण निवेश का स्वागत करते हैं। हमारे स्टैकहोल्डर्स के साथ मिलकर, हम इकट्ठे अधिक ग्रीन भविष्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन में पेड़ लगाने सहित, पूरे कैनेडा में पेड़ लगाने से, हमें हमारे 2030 के जलवायु संबंधी लक्ष्यों और 2050 तक नेट-ज़ीरो निकासियां हासिल करने में मदद मिलेगी। दो बिलियन पेड़ों की पहलकदमी, ब्रैम्पटन के निवासियों को अधिक साफ हवा और अधिक छाया के लिए विस्तृत जंगल कैनोपी प्रदान करेगी। साथ ही, यह पर्यावरण-अनुकूलित नौकरियां भी पैदा करेगी। इस निवेश के लिए मैं बेहद उत्साहित हूँ, क्योंकि इस पीढ़ी के साथ-साथ आने वाली पीढ़ियों पर भी इसका असर होगा!”

- मनिंदर सिद्धू (Maninder Sidhu), मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डिवेलपमेंट के लिए पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, ब्रैम्पटन ईस्ट के लिए मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट

“दो बिलियन पेड़ लगाना, जलवायु संबंधी कार्रवाई के लिए एक योजना से कहीं बढ़कर है। यह हज़ारों की संख्या में बढ़िया और पर्यावरण-अनुकूलित नौकरियां पैदा करने की योजना है। हम पूरे देश में पेड़ लगाने के प्रोजेक्ट्स की आधिकारिक शुरुआत कर रहे हैं। पेड़ लगाने से हम नेट-ज़ीरो निकासियां हासिल कर पाएंगे।”

- माननीय शेमस ओ'रीगन जूनियर (Seamus O'Regan Jr.), मिनिस्टर ऑफ नेचुरल रिसोर्सिज

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

प्रभजोत कैथ (Prabhjot Kainth)

कोआर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Prabhiot.Kainth@brampton.ca

इयान कैमरोन (Ian Cameron)

सीनियर कम्युनिकेशन्स एडवाइजर

ऑफिस ऑफ द मिनिस्टर ऑफ नैचुरल रिसोर्सिज

613-447-3488 | Ian.Cameron@canada.ca

मीडिया रिलेशन्स

नैचुरल रिसोर्सिज कॅनेडा

ओटावा

343-292-6100 | NRCan.media.RNCan@canada.ca